



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 1, 2001 (अग्रहायण 10, 1923)
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 1, 2001 (AGRAHAYANA 10, 1923)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

सहयोगी एवं अनुपंगी समूह

मुम्बई. दिनांक 12 नवम्बर 2001

सं. 7/2001--भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 63 की उप धारा (1) के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक तथा संबंधित सहयोगी बैंकों के निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ बॉकानेर एण्ड जयपुर/हैदराबाद/इन्दौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र/ब्रावणकार बंध अधिकारी सेवा विनियमन, 1979 के विनियम 62(4) निम्नलिखित संशोधन को अनुमोदित किया है :--

विनियम 62(4) :

प्रत्येक अधिकारी ऐसे प्रत्येक लेन-देन की सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा, जो ऐसी चल संपत्ति से संबंधित हो जिसका वह मालिक हो, जिसे उसने रखा हो, चाहे वह उसके अपने नाम में या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम में हो, और यदि ऐसी संपत्ति का मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक हो। बशर्ते यदि ऐसा लेन-देन निम्नलिखित किसी प्रकार का हो, तो सक्षम प्राधिकारी की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त की जाएगी :--

- (क) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होगा, जिसका अधिकारी के साथ कार्यालयीन व्यवहार हो, या
- (ख) किसी नियमित या प्रसिद्ध व्यापारी के अलावा अन्य व्यक्ति से।

केन्द्रीय बोर्ड के आदेशानुसार

आर मन्तरामन्

उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कायपालक
(सहयोगी एवं अनुपंगी समूह)

STATE BANK OF INDIA

ASSOCIATES & SUBSIDIARIES GROUP

Mumbai, the 12th November 2001

No 7/2001:—In exercise of the powers under Sub-section (I) of Section 63 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and as approved by the Reserve Bank of India and the Board of Directors of the concerned Associate Banks, the State Bank of India has approved the undernoted amendment to Regulation No. 62(4) of State Bank of Bikaner & Jaipur/Hyderabad/Indore/Mysore/Patiala/Saurashtra/Travancore Officers' Service Regulations, 1979 .—

Regulation 62(4) :

Every officer shall report to the Competent Authority every transaction concerning movable property owned or held by him either in his own name or in the name of a member of his family if the value of such property exceeds Rs. 25,000/-. Provided that the previous sanction of the Competent authority shall be obtained if any such transaction is .—

- (a) with a person obligated to the Bank through official dealings with the officer, or
- (b) otherwise than through a regular or reputed dealer.

By the Order of the Central Board

R.S. SUNDARARAMAN
Dy. Managing Director &
Group Executive (A & S Group)